

TELANGANA STATE PUBLIC SERVICE

COMMISSION

Notations :

- 1.Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- 2.Options shown in red color and with ✗ icon are incorrect.

Question Paper Name :	67 Paper Code Hindi 29th Nov 2021 Shift 2
Subject Name :	67 Paper Code Hindi
Duration :	180
Calculator :	Normal
Magnifying Glass Required? :	No
Ruler Required? :	No
Eraser Required? :	No
Scratch Pad Required? :	No
Rough Sketch/Notepad Required? :	No
Protractor Required? :	No
Show Watermark on Console? :	Yes
Highlighter :	No
Auto Save on Console? (SA type of questions will be always auto saved) :	No

67 Paper Code Hindi

Group Number :	1
Group Id :	881891264
Group Maximum Duration :	0

Group Minimum Duration :	180
Show Attended Group? :	No
Edit Attended Group? :	No
Break time :	0
Group Marks :	0
Is this Group for Examiner? :	No
Revisit allowed for group Instructions? :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Minimum Instruction Time :	0
Group Time In :	Minutes

67 Paper Code Hindi

Section Id :	881891264
Section Number :	1
Section type :	Offline
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	1
Number of Questions to be attempted :	1
Section Marks :	0
Display Number Panel :	Yes
Group All Questions :	No
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Section Instructions :	
English :	
Absolute	
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	881891264

067-H

Total No. of Question : 8]

Total No. of Pages : 3]

November - 2021

**SPECIAL LANGUAGE TEST FOR OFFICERS OF THE
EDUCATION DEPARTMENT**

LOWER STANDARD-WRITTEN EXAMINATION, PAPER- III-HINDI

Grammar and Idioms

(Without Books)

Time : 3 Hrs.]

[Marks :100

- Note :*
- 1) Candidate should attempt All Questions subject to alternatives or limitations, if any, mentioned herein or in each questions. If more are answered, the last extra answers will be ignored.*
 - 2) Parts of the same question must be answered together and must not be interposed by answer(s) to other question(s).*
 - 3) Authorities should be quoted in support of the answers wherever necessary.*
 - 4) Candidates should answer the paper in English only, except language test or surveyors test, which should be answered in the language chosen only. In case of non-compliance, such Answer Script shall be invalidated.*

सूचना : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

I. संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उसके विभिन्न प्रकारों को सोदाहरण समझायिए ।

[1 × 20 = 20]

अथवा

संधि किसे कहते हैं ? संधि के प्रकार बताते हुए सोदाहरण समझायिए ।

अथवा

समास कितने प्रकार के होते हैं ? उदाहरण देते हुए समझाइए ।

II. लिंग किसे कहते हैं ? उसके भेदों को बताते हुए उदाहरण लिखिए । [1 × 20 = 20]


अथवा

काल कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण देते हुए समझाइए ।

अथवा

वचन किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित समझाइए ।

III. नीचे दिये गए चित्र देखकर उसके नाम लिखिए । [5 × 2 = 10]



IV. किन्ही पाँच शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिये ।

[5 × 2 = 10]

- | | |
|------------|---------------|
| 1) भाषा | 2) हिन्दी |
| 3) संसार | 4) विज्ञान |
| 5) साहित्य | 6) आत्मसम्मान |
| 7) रक्षा | 8) लेखक |
| 9) नारी | 10) माँ |
- 2

V. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये ।

[5 × 2 = 10]

- 1) दूध 2) कम 3) पढाई 4) युद्ध 5) शासन

1. आज - कल घोड़ा गाड़ियों का प्रयोग _____ हो गया है ।
2. गाय _____ देती है ।
3. राजा _____ करता है ।
4. योद्धा _____ करता है ।
5. छात्र _____ करते हैं ।

VI. नीचे दिए गए शब्दों में से पाँच शब्दों के वचन बदलिए ।

[5 × 2 = 10]

- | | |
|---------------|-------------|
| 1) विध्यार्थी | 2) कर्मचारी |
| 3) स्त्री | 4) आम |
| 5) कपड़े | 6) कार |
| 7) पुस्तकें | 8) नेता |
| 9) पानी | 10) भोजन |

VII. नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए ।

[5 × 2 = 10]

- 1) उसका आँसू निकल आया ।
- 2) मैं आपका दर्शन करने आया था ।
- 3) मेरे होश उड़ गया ।
- 4) सब्र का फल मीठा होता है ।
- 5) आजकल सोना मेहंगा हो गयी है ।

VIII. किसी एक विषय पर दस वाक्यों में उत्तर लिखिए ।

[1 × 10 = 10]

- 1) आधुनिक नारी
- 2) कम्प्यूटर
- 3) भ्रष्टाचार

